



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1936 (श०)

(सं० पटना 905) पटना, सोमवार, 10 नवम्बर 2014

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर 2014

सं० 5पुरा/सु-1-01/2013-22-357-30—राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या-601 दिनांक 18.07.2014 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या-5पुरा/सु-1-01/2013-22 ज्ञापांक-216 दिनांक 17.07.2014 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल/स्मारक जमुई जिला अन्तर्गत गिद्धौर प्रखंड के मुख्य सड़क पर लॉर्ड मिन्टो टॉवर अवस्थित है, सुरक्षित घोषित करने के आशय का दो माह की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 1976” की धारा-3 की उप-धारा 01 के आदेशानुसार उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी तथा दो माह की अवधि के अन्दर अधिसूचना से सम्बन्धित सुझाव अथवा आपत्ति की मांग की गई थी।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्र अधिसूचना ज्ञापांक-216 दिनांक 17.07.2014 के विरुद्ध निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई आपत्ति अथवा सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल को सुरक्षित घोषित किए जाने योग्य समझा गया है।

अतः अब राज्य सरकार “लॉर्ड मिन्टो टॉवर” को “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 1976” की धारा-3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुबोध कुमार चौधरी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष की राजस्व विवरणी

क्रम सं०	स्थल का नाम एवं रैयत का नाम	अंचल	मौजा	जमीन का खतियानी विवरणी			चौहद्दी					अभ्युक्ति
				खाता	खसरा	रकबा	कि० म०	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लॉर्ड मिण्टो टावर, गिद्धौर गैरजमरूआ आम	गिद्धौर	पतसंडा 129	381	1623	0.1 1/2	सड़क	सड़क	सड़क	सड़क	रास्ता	1484 सड़क हेतु अधिग्रहित जमीन है।
					1532	0.6						
					1484	0.1 1/2						
					कुल:-	0.09 पर टावर अवस्थित है।						

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 905-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>